

## विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा – पंचम्

दिनांक -18- 10-2020

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज संधि के बारे में पुनः अध्ययन करेंगे ।

### स्वर संधि

स्वर संधि की परिभाषा

जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है, तो वह स्वर संधि कहलाती है।

**जैसे-** विद्यालय : विद्या + आलय

इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जब दो स्वरों को मिलाया गया तो मुख्य शब्द में हमें अंतर देखने को मिला। दो आ मिले एवं उनमें से एक आ का लोप हो गया।

स्वर संधि के भेद-

- दीर्घ संधि
- गुण संधि
- वृद्धि संधि
- यण संधि
- अयादि संधि

**दीर्घ संधि-** संधि करते समय अगर (अ, आ) के साथ (अ, आ) हो तो 'आ' बनता है, जब (इ, ई) के साथ (इ, ई) हो तो 'ई' बनता है, जब (उ, ऊ) के साथ (उ, ऊ) हो तो 'ऊ' बनता है। जब ऐसा होता है तो हम इसे दीर्घ संधि कहते हैं।

**गुण संधि-** जब संधि करते समय (अ, आ) के साथ (इ , ई) हो तो 'ए' बनता है, जब (अ ,आ)के साथ (उ , ऊ) हो तो 'ओ' बनता है, जब (अ, आ) के साथ (ऋ) हो तो 'अर' बनता है तो यह गुण संधि कहलाती है।

**वृद्धि संधि-** जब संधि करते समय जब अ , आ के साथ ए , ऐ हो तो ' ऐ ' बनता है और जब अ , आ के साथ ओ , औ हो तो ' औ ' बनता है। उसे वृद्धि संधि कहते हैं।

**यण संधि-** जब संधि करते समय इ, ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ' य ' बन जाता है, जब उ, ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ' व ' बन जाता है , जब ॠ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ' र ' बन जाता है।

**अयादि संधि-** जब संधि करते समय ए , ऐ , ओ , औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो (ए का अय), (ऐ का आय), (ओ का अव), (औ - आव) बन जाता है। यही अयादि संधि कहलाती है।

लिखकर याद करें।